

## प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार गोरखपुर दिनांक 02.09.2022

### **लूट के आरोप मे वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, लूट का 4500 रूपया बरामद**

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में दिनांक 02.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक उरुवा बाजार द्वारा गठित टीम उ0नि0 धनन्जय कुमार राय मय हमराहियान के द्वारा मुखबीर की सूचना पर थाना उरुवाबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/22 धारा 394,411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1.शुभम राय उर्फ नितेश राय पुत्र महानन्द राय 2.दीपक राय उर्फ आदित्य राय पुत्र राम सिंह राय निवासीगण ग्राम टडवा श्रीराम थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से लूट का 4500 रूपया बरामद हुआ है। अभियुक्त गण उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

### **संक्षिप्त घटना व पृष्ठताछ विवरण-**

दिनांक 28.08.2022 को वादी जो उरुवा बाजार चौराहे पर पकौड़ी के दुकान पर काम करके घर जा रहा था कि टडवा श्रीराम सरकारी ट्यूबवेल के पास 1.शुभम राय पुत्र महानन्द राय व दो अज्ञात व्यक्ति ने वादी का 5200 रूपया छिन लिये तथा विरोध करने पर वादी की पत्नी को थप्पड मारे थे जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/2022 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया है। वांछित की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी। गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.09.2022 को वांछित अभियुक्त 1.शुभम राय पुत्र महानन्द राय व 2.आदित्य राय पुत्र रामसिंह राय को उरुवा चौराहे सिंकरीगंज मोड पर से गिरफ्तार किया गया तथा लूट का 4500 रूपया बरामद हुआ। अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

- 1.शुभम राय उर्फ नितेश राय पुत्र महानन्द राय निवास ग्राम टडवा श्रीराम थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
- 2.दीपक राय उर्फ आदित्य राय पुत्र राम सिंह राय निवास ग्राम टडवा श्रीराम थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 117/22 धारा 394/411 भादवि थाना उरुवाबाजार गोरखपुर

## गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 श्री धन्नजय राय थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
- 2.का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
- 3.का0 विजय कुमार नाग थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
- 4.का0 रवि शुक्ला थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
- 5.का0 मोनू यादव थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर